

आढ़ती द्वारा धान खरीदे जाने पर अलीगंज में किसानों का हंगामा - मौके पर

पहुंचे एसडीएम और मंडी सचवि

Uproar of farmers in Aliganj over the purchase of paddy by the agent

- SDM and Mandi Secretary reached the spot

गोला गोकर्णनाथ, खीरी। किसानों का धान कम कीमत पर खरीदे जाने और एक माह बाद भुगतान किए जाने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। इसकी जानकारी होने के बाद एसडीएम व मंडी सचवि मौके पहुंचे। उन्होंने कार्यवाही किए जाने की बात कही है।

तहसील क्षेत्र के अलीगंज में किसान अपना धान बेचने आए थे। किसान शैलेंद्र सहि, मोहम्मद सलीम, मनजीत सहि, कुलदीप सहि, जोगदिर सहि, अमरीक सहि, समेत कई किसानों ने एक आढ़ती के कहने पर अपना धान तुलवा दिया। इसके बाद जब भुगतान की बात आई तो बताया गया कि एक माह बाद मलिया।

किसानों का आरोप है कि एक तो 1100 से 1200 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदा गया और ऊपर से 1 माह बाद भुगतान की बात कही जा रही है। इसे लेकर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आढ़तियों और एक राइस मलिया पर मनमाने तरीके से धान की खरीद करने का आरोप लगाया है।

हंगामे की सूचना के बाद एसडीएम अखलिश यादव, कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचवि प्रदीप कुमार अलीगंज पहुंचे और उससे गल्ला खरीदने की लाइसेंस मांगी, फरि उसका कांटा चेक कराया गया। उन्होंने कहा कि धान मंडी भेजवाया जाए और शुल्क अदा किया जाए। इसके साथ ही राइस मलिया पर खड़ी धान भरी 12 ट्रालियों को भी गोला धान सेंटर पर भजिवाया गया है। मौके पर बांट माप नरीकषक को बुलाकर चेक कराया गया तो उनका लोहे का बांट बगैर मोहर का मलिया है।

आढ़ती के पास लाइसेंस था, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। उसके कागजों की जांच की जा रही है। अब किसी भी प्रकार की धान खरीद मंडी से बाहर नहीं होगी।

अखलिश यादव, एसडीएम